



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 01 मार्च, 2023

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में चोरी करने वाले गिरोह के 01 शातिर अपराधी घायलावस्था में गिरफ्तार कब्जे से चोरी की बाइक, अवैध असलहा, कारतूस बरामदा

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 01-03-2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम एनयूएस पब्लिक स्कूल के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि उसी समय एक बाइक पर 02 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए जिनको रूकने का इशारा किया गया तो बदमाश बाइक को और तेजी से भगाने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ ही दूरी पर आम के बाघ के पास कच्चे रास्ते पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी जिस पर बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाग की तरफ भागने में सफल रहा जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **1. रवि पुत्र रामबाबू निवासी काशीराम आवास मण्डी थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर के रूप में हुई हैं।** जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश शातिर किस्म का चोर है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर/देहात पर विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- रवि पुत्र रामबाबू निवासी काशीराम आवास मण्डी थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- 2- 01 चोरी की बाइक पैसन प्रो ब्लैक (बिना नम्बर)

गिरफ्तार अभियुक्त रवि का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-1001/2016 धारा 380/511 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
2. मुअसं-72/19 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
3. मुअसं-985/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
4. मुअसं-1456/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
5. मुअसं-583/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
6. मुअसं-627/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
7. मुअसं-814/2020 धारा 13जी एक्ट थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
8. मुअसं-64/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
9. मुअसं-167/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री संजीव कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर।
- 2- व०उ०नि० श्री वीरेन्द्र सिंहा
- 3- उ०नि० अजय पाल सिंह प्रभारी चौकी नरसलघाटा।
- 4- है०का० कपिल, है०का० अशोक, है०का० संजीव बालियान, है०का० अभिषेक, है०का० विदिता।



मीडिया सेल बुलंदशहर